

BANANA CART

केले की गाड़ी



Every day the banana cart comes

हर रोज केले की गाड़ी आती है



I will also buy bananas
मैं भी केले खरीदूंगी

Ten paise for one
दस पैसे का एक



I like bananas very much
मुझे केले बहुत पसंद हैं

I drop the peel below
मैंने केले का छिलका नीचे फेंका



Oh god! My little sister slipped on it
हे भगवान! मेरी छोटी बहन फिसल गई